

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2015—चैत्र 10, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2015 (चैत्र 10, 1937)

विधान सभा के सदस्य की निधन की सूचना

क्र. 7286-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 227-गरोठ से निर्वाचित सदस्य, श्री राजेश यादव का दिनांक 27 मार्च 2015 को निधन हो जाने के फलस्वरूप विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है।

भगवान्देव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.